



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 1982/माघ 26, 1903
No. 46] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 1982/MAGHA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्यांक 16/82-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1982

सा. का. नि. 61(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधि-
सूचना सं. 230 सीमा-शुल्क, तारीख 20 अक्टूबर, 1981 को अधिक्रान्त करते
हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक

है, सीमा-शुल्क टारिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के शीर्ष सं. 20 के अधीन आने वाली मूंगफली को, जब उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है ।

[फा. सं. 347/7/80-टी. आर. यू.]

जे. श्रीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 16/82-CUSTOMS

New Delhi, the 15th February, 1982

G.S.R. 61(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 230-Customs, dated the 20th October, 1981, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts groundnut, falling under Heading No. 20 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule.

[F. No. 347/7/80-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.